



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1100 राँची, शुक्रवार,

7 दिसम्बर, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

27 नवम्बर, 2018

संचिका संख्या-2/राज०स्था० (अ०सृ०)-75/2015-4696/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2018 में मद संख्या-08 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलांतर्गत नवसृजित दो अंचलों-कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i) पुनर्गठित निरसा अंचल के पूर्व स्वीकृत राजस्व कर्मचारी के कुल 07 (सात) पदों का प्रत्यार्पण (Surrender) करते हुए नवसृजित दो अंचलों यथा: कलियासोल हेतु कुल 18 (अठारह) पदों (राजपत्रित पद-01 एवं अराजपत्रित पद-17) तथा एग्यारकुण्ड हेतु कुल 17 (सत्रह) पदों

(राजपत्रित पद-01 एवं अराजपत्रित पद-16) अर्थात् आवश्यक कुल 35 (पैंतीस) पदों (राजपत्रित पद-02 एवं अराजपत्रित पद-33) के सृजन निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

- (क) समूह 'घ'/चालक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों के विरुद्ध बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त की जाय तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिया जाय।
- (ख) बाह्य श्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जाय, अपितु बाह्य श्रोत की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मों की संख्या समझी जायेंगी।
- (ग) सृजित पद हेतु वित्तीय विभागीय संकल्प सं०-660/वि०, दिनांक 28 फ़रवरी, 2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वीं वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217/वि०, दिनांक 18 जनवरी, 2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

- ii) अंचल कार्यालय के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी का 01 (एक) पद, अंचल निरीक्षक का 01 (एक) पद, प्रधान लिपिक का 01 (एक) पद, उच्चवर्गीय लिपिक का 01 (एक) पद, निम्नवर्गीय लिपिक का 02 (दो) पद, अमीन का 02 (दो) पद, जंजीरवाहक का 02 (दो) पद, जीप चालक का 01 (एक) पद (बाह्य स्रोत से), आदेशपाल का 02 (दो) पद (बाह्य स्रोत से), कम्प्यूटर ऑपरेटर का 01 (एक) पद (बाह्य स्रोत से) एवं राजस्व कर्मचारी का पद नव सृजित अंचल कार्यालय कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड हेतु क्रमशः 04 (चार) एवं 03 (तीन) पद, (विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट-I एवं परिशिष्ट-II) के सृजन अर्थात् कुल 35 (पैंतीस) पदों का सृजन एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय की राशि 1,13,54,116/- (एक करोड़ तेरह लाख चौवन हजार एक सौ सोलह) रुपये पर किया गया है (विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट-III)। सृजित पदों का नाम, वेतनमान एवं उन पर अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न परिशिष्ट-I, II एवं III में दर्शायी गयी है।
- iii) उक्त पदों के लिए व्यय का विकलन "गैर योजना आय व्ययक मुख्यशीर्ष-2029, भू-राजस्व, लघुशीर्ष-104, सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध उपशीर्ष -01 राजस्व प्रशासन पर व्यय" के अन्तर्गत किया जायेगा।
- iv) नवसृजित अंचलों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई राज्य सरकार के अद्यतन नियमों, परिपत्रों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत इसके लिए समय-समय पर घोषित सक्षम प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

अनु०-परिशिष्ट- I, II एवं III

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-I

धनबाद जिला अंतर्गत नवसृजित अंचल-कलियासोल के लिए प्रस्तावित पदों का नाम एवं वेतनमान :-

क्र.	पदनाम	छठा वेतनमान (पे बैंड, वेतनमान, ग्रेड पे)	सप्तम वेतनमान	लेवल	पदों की संख्या
1.	अंचल अधिकारी	पी बी II, 9300-34800/-, 5400	53100	9	1
2.	अंचल निरीक्षक	पी बी II, 9300-34800/-, 4200	35400	6	1
3.	प्रधान लिपिक	पी बी II, 9300-34800/-, 4200	35400	6	1
4	उच्चवर्गीय लिपिक	पी बी I, 5200-20200/-, 2400	25500	4	1
5.	निम्नवर्गीयलिपिक	पी बी I, 5200-20200/-, 1900	19900	2	2
6.	अमीन	पी बी I, 5200-20200/-, 2000	21700	3	2
7.	राजस्व कर्मचारी	पी बी II, 5200-20200/-, 2000	21700	3	4
8.	जंजीरवाहक	I एस, 4440-7440/-, 1650	18000	1	2
9.	जीप चालक	बाह्य स्रोत से			1
10.	आदेशपाल	बाह्य स्रोत से			2
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बाह्य स्रोत से			1
कुल योग—					18 (अठारह) पद

परिशिष्ट-II

धनबाद जिला अंतर्गत नवसृजित अंचल-एयारकुंड के लिए प्रस्तावित पदों का नाम एवं वेतनमान :-

क्र.	पदनाम	छठा वेतनमान (पे बैंड, वेतनमान, ग्रेड पे)	सप्तम वेतनमान	लेवल	पदों की संख्या
1.	अंचल अधिकारी	पी बी II, 9300-34800/-, 5400	53100	9	1
2.	अंचल निरीक्षक	पी बी II, 9300-34800/-, 4200	35400	6	1
3.	प्रधान लिपिक	पी बी II, 9300-34800/-, 4200	35400	6	1
4	उच्चवर्गीय लिपिक	पी बी I, 5200-20200/-, 2400	25500	4	1
5.	निम्नवर्गीयलिपिक	पी बी I, 5200-20200/-, 1900	19900	2	2
6.	अमीन	पी बी I, 5200-20200/-, 2000	21700	3	2
7.	राजस्व कर्मचारी	पी बी II, 5200-20200/-, 2000	21700	3	3
8.	जंजीरवाहक	I एस, 4440-7440/-, 1650	18000	1	2
9.	जीप चालक	बाह्य स्रोत से			1
10.	आदेशपाल	बाह्य स्रोत से			2
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बाह्य स्रोत से			1
कुल योग—					17 (अठारह) पद

परिशिष्ट-II

धनबाद जिला अंतर्गत नवसृजित अंचल- कलियासोल एवं एग्यारकुण्ड के लिए प्रस्तावित पदों के लिए एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय विवरणी (सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार) :-

(रूपये में)

वेतन (DA, HRA तथा MA सहित)	10495116
कार्यालय व्यय	400000
यात्रा व्यय	200000
विधुत प्रभार	100000
दूरभाष	100000
वर्दी	59000
कुल	11354116

(एक करोड़ तेरह लाख चौवन हजार एक सौ सोलह रू०)

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
